

By E-filing

Date: 23<sup>rd</sup> August, 2021

REF:TEIL:SE:

The Deputy General Manager Department of Corporate Services, BSE Limited, 1 <sup>st</sup> Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Tower, Dalal Street, Fort, MUMBAI – 400 001.	The Asst. Vice President, Listing Department National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI - 400 051.
<b>STOCK CODE: 532356</b>	<b>STOCK CODE: TRIVENI</b>
<b>Sub: Newspapers publication regarding 85<sup>th</sup> AGM of the Company and Record Date for entitlement of Dividend for FY 21</b>	

Dear Sir/Madam,


Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copies of the relevant newspapers advertisement published on 22<sup>nd</sup> August, 2021 in Financial Express (English) and Jansatta & Viswa Manav (Hindi) relating to 85<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Friday, 17<sup>th</sup> September, 2021 at 3.00 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) and Record Date for entitlement of dividend for FY21.

You are requested to please take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For Triveni Engineering & Industries Ltd.,**



**GEETA BHALLA**  
Group Vice President &  
Company Secretary

Encl: As above

**TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED**

Corporate Identity Number: L15421UP1932PLC022174  
 Regd. office: Deoband, District Saharanpur, Uttar Pradesh - 247554  
 Corp. office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida, U.P. - 201301  
 E-mail: shares@trivenigroup.com, Website: www.trivenigroup.com,  
 Phone: 91 120 4308000 / Fax: 91 120 4311010-11

**85th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)**

Notice is hereby given that 85th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Triveni Engineering & Industries Limited (the "Company") will be held on Friday, 17th day of September, 2021 at 3:00 P.M. (IST) through VC/OAVM to transact businesses, as set forth in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM.

In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs vide its General Circular dated January 13, 2021 read with circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020 (hereinafter collectively referred to as the "MCA Circulars"), have permitted the holding of the AGM through VC/OAVM, without physical presence of the members at a common venue. In compliance with the MCA circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules made thereunder, and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the members of the Company will be held through VC/OAVM.

In accordance with the above MCA Circulars and circular dated January 15, 2021 read with circular dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the Notice of the AGM of the Company along with the Annual Report (2020-21) is being sent only through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report (2020-21) will also be made available on the website of the company www.trivenigroup.com, websites of the Stock Exchanges, namely, National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and BSE Limited www.bseindia.com as well as on the website of KFin Technologies Pvt. Limited (KFintech), the agency for providing e-voting (including remote e-voting) facility, www.evoting.kfintech.com

**Manner to cast vote(s) through remote e-voting / e-voting at the AGM**

- Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through e-voting (including remote e-voting). The manner of e-voting (including remote e-voting) by members holding shares in dematerialized / physical form shall be provided in the Notice of the AGM.
- The facility of e-voting will also be made available at the AGM and members attending the AGM through VC/OAVM who have not cast their vote(s) on the resolutions during the remote e-voting period and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
- The log-in credentials to cast the vote(s) through e-voting (including remote e-voting) shall be made available to the members through e-mail. Members who do not receive the e-mail or whose e-mail addresses are not registered with the Company / Depository Participant(s) may generate their log-in credentials by following the instructions given below.

**Manner of registration / updating of e-mail addresses and Bank Mandates**

Members who have not registered their e-mail addresses with the Company or their Depository Participant(s) are requested to register the same temporarily for the purpose of receiving the Notice of the AGM and Annual Report (2020-21) by clicking the following link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> and complete the registration process as guided therein.

For permanent registration of e-mail addresses and bank mandates, members are requested to follow the below procedure:

For shares held in Physical form	The members are requested to send an e-mail request at <a href="mailto:einward.ris@kfintech.com">einward.ris@kfintech.com</a> along with scan copy of signed request letter mentioning Folio No., Name of the Shareholder, Certificate No., PAN, Mobile Number, E-mail ID, Bank account details along with a self-attested copy of your PAN Card/Aadhar/ Valid Passport and cancelled cheque leaf etc.
For shares held in Dematerialized form	The members holding shares in electronic mode are requested to register / update their e-mail addresses, PAN and Bank Account details with the Depository Participant where their respective accounts are maintained.

In case of any queries in regard to the registration process of e-mail addresses, members may contact "KFintech" Registrar and Share Transfer Agent of the Company at [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com)

**RECORD DATE & TDS ON DIVIDEND**

The Board of Directors at its meeting held on June 29, 2021 has recommended a dividend of Rs 1.75 per share of the face value of Re.1/- each for the financial year 2020-21. The record date for the purpose of determining eligibility for receipt of dividend is September 10, 2021. The dividend, if approved, by the members at the AGM, will be paid electronically to those members who have updated their bank account details for receiving dividend through electronic means. For members who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts will be sent to them subject to availability of postal service. To avoid delay in receiving, dividend, members are requested to update their bank account details with their Depository Participants, where shares are held in dematerialised mode, and with KFintech, Registrar and Transfer Agent of the Company, where the shares are held in physical mode.

Pursuant to the Income Tax Act, 1961 as amended, dividend income is taxable in the hands of members and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to members at the prescribed rates. Members are requested to refer to the 'TDS Instructions on Dividend Distribution' available on the website of the Company [www.trivenigroup.com](http://www.trivenigroup.com), and submit all requisite documents on or before Tuesday, September 7, 2021, to enable the Company to determine the appropriate TDS rates, as applicable.

For Triveni Engineering & Industries Ltd.


Sd/-

Geeta Bhalla

Group Vice President & Company Secretary

Date : 21-08-2021  
 Place : Noida (U.P.)

Financial Express  
 (English)  
 Dt. 22/8/2021  
 All edition



# त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L15421UP1932PLC022174

पंजी. कार्या.: देवबन्द, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) - 247554.

कार्पोरेट कार्या. 8वीं मंजिल, एक्सप्रेस ट्रेड टावर 15.16, सेक्टर-16ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301

ई-मेल: shares@trivenigroup.com, वेबसाइट: www.trivenigroup.com,

दूरभाष: 91 120 4308000 / फ़ैक्स: 91 120 4311010-11

## विडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं अन्य दूरस्थ-श्रव्य माध्यमों के द्वारा आयोजित होने वाली 85वीं वार्षिक सामान्य बैठक

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 85वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 17 सितंबर, 2021 को दोपहर 3:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य दूरस्थ-श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी ताकि बैठक को आयोजित करने के लिए भेजी जा रही सूचना में निर्धारित कामकाज को पूरा किया जा सके।

निरन्तर कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने सामान्य परिपत्र दिनांक 13 जनवरी, 2021 साथ में पठित परिपत्रों दिनांक 5 मई, 2020, 8 अप्रैल और 13 अप्रैल, 2020 (इसके बाद सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्रों" के नाम से निर्दिष्ट) द्वारा एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम को आयोजित करने की अनुमति दे दी है। एमसीए परिपत्रों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों और इसके अधीन दिए गए नियमों और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों की एजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा।

उक्त एमसीए परिपत्रों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15 जनवरी, 2021 साथ में पठित परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुसरण में, वार्षिक रिपोर्ट (2020-21) के साथ कम्पनी के एजीएम का नोटिस उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा रहा है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत हैं। सदस्य कृपया ध्यान दें कि एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट (2020-21) कम्पनी की वेबसाइट www.trivenigroup.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.nseindia.com और www.bseindia.com तथा ई-मतदान (दूरस्थ ई-मतदान सहित) सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी, केफिन टेक्नालाजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक) की वेबसाइट www.evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध करवाए जायेंगे।

### ई-मतदान के माध्यम से रिमोट ई-मतदान/एजीएम में मतदान का तरीका

(क) सदस्यों के पास ई-मतदान (दूरस्थ ई-मतदान सहित) के माध्यम से एजीएम में निर्धारित किए गए व्यवसायों पर अपना मतदान देने को अवसर होगा। डिजिटल रिपोर्ट/भौतिक रूप से शेर धारण करने वाले सदस्यों को ई-मतदान (दूरस्थ ई-मतदान सहित) को विधि, एजीएम के नोटिस में प्रदान की जाएगी।

(ख) ई-मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में उपस्थित होने वाले वे सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से, एजीएम के दौरान ई-मतदान प्रणाली द्वारा मतदान देने के लिए पात्र होंगे जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान प्रस्तावों पर अपना मतदान नहीं दिया है और ऐसा करने से वे वर्जित नहीं हैं।

(ग) ई-मतदान (दूरस्थ ई-मतदान सहित) के माध्यम से मतदान करने के लिए लॉग-इन प्राथमिकताएं (क्रैडेंशियल्स), सदस्यों को ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। जिन सदस्यों को ई-मेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत नहीं हैं, वे निम्नलिखित निर्देशों का पालन करते हुए अपनी लॉग-इन प्राथमिकताएं उत्पन्न कर सकते हैं।

### ई-मेल पतों को पंजीकरण/अद्यतन करने को तरीका और बैंक विवरण

जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पतों को कम्पनी या उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि निम्नलिखित लिंक: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileemailreg.aspx> पर क्लिक करके तथा उसमें दिए गए अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करके एजीएम के नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट (2020-21) को प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु उसे अस्थायी रूप से पंजीकृत करें:

### ई-मेल पतों के स्थायी पंजीकरण और बैंक विवरण के लिए, सदस्य कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:-

भौतिक रूप से रखे शेरों के लिए	सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ईमेल पता और बैंक बैंक मैकेट पंजीकृत / अपडेट करने के लिए, अपने फोनियो नंबर, नाम, प्रमाण पत्र संख्या, मोबाइल नंबर, पैन, ईमेल पता और बैंक खाते के विवरण का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति के साथ पैन/आधार कार्ड/पासपोर्ट/रद किए गए चेक पते की एक स्व-सत्यापित प्रति einward.ris@kfintech.com पर भेजें।
डिजिटल रिपोर्ट/इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेरों के लिए	इलेक्ट्रॉनिक विधि में शेर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि अपने ई-मेल पतों, पैन व बैंक खाता विवरणों को उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत/नवीकृत करवाए जाईं उनके संबंधित डिमैट खाते हैं।

यदि ई-मेल पते की पंजीकरण प्रक्रिया में कोई भी प्रश्न है, तो सदस्य कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेर ट्रान्स्फर एजेंट, केफिनटेक से einward.ris@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।

### रिकॉर्ड तिथि और लाभांश पर टीडीएस

निदेशक मंडल ने 29 जून, 2021 को हुई अपनी बैठक में रु० 1 के सममूल्य प्रति शेर पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रु० 1.75 प्रति शेर के लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश की प्राप्ति के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि 10 सितंबर, 2021 है। लाभांश, यदि एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया जाएगा जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके लिए लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट आक सेवा की उपलब्धता के अधीन उन्हें भेजे जाएंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण को अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, जहां शेरों को डिमैट रिजल्टाइज्ड रूप में रखा गया है, और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रान्स्फर एजेंट केफिनटेक, के साथ अपडेट करें, जहां शेर भौतिक रूप में रखे गए हैं। संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, लाभांश आय सदस्यों के हाथों में लाभांश आय कर योग्य है और कंपनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से छूट पर कर की कटौती अपेक्षित है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी की वेबसाइट www.trivenigroup.com पर उपलब्ध 'लाभांश वितरण पर टीडीएस निर्देश' देखें और मंगलवार, 7 सितंबर, 2021 को या उससे पहले सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें, ताकि कंपनी टीडीएस दरें, जैसा लागू हो पर उचित निर्धारण कर सके।

### कृते त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

तिथि : 21-08-2021

स्थान : नोएडा, यू.पी.

हस्ता. /-

गीता मल्ला

समूह उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव

Jangata (Hindi)

+

Vishwa Manav (Hindi)

Sahasrabpur

Dt. 22/8/2021

